

दिनांक 28.04.2021

--: प्रेस विज्ञप्ति :-

**ऑक्सिजन सिलेंडर तथा अन्य मेडिकल उपकरणों के लिए एसईसीएल ने
दिए 25 लाख रुपए**

बिलासपुर ज़िले के चिकित्सालयों में मरीजों की बढ़ती संख्या से ज़िला प्रशासन ने किया था अनुरोध

कोरोना की दूसरी लहर में चिकित्सालयों में ऑक्सिजन सिलेंडरों की विशेष आवश्यकता आ रही है। एसईसीएल ने बिलासपुर ज़िले के अस्पतालों में ऑक्सिजन सिलेंडर सहित अन्य मेडिकल उपकरणों की तत्काल ख़रीद के लिए सीएसआर मद से 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उक्त राशि ज़िला प्रशासन को दी जा रही है ।

हाल में बिलासपुर ज़िले में कोरोना पॉज़िटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तथा औसतन एक हज़ार से अधिक मरीज प्रतिदिन संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस सम्बंध में ज़िला प्रशासन से प्राप्त अनुरोध अनुसार, ज़िले के चिकित्सालयों में मरीजों के भर्ती होने की संख्या में वृद्धि के कारण कोरोना उपचार हेतु आवश्यक मेडिकल उपकरणों की कमी हो रही थी ।

कोविड अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्था के लिए कोरबा जिले को सहायता घोषित

एसईसीएल सीएसआर मद से गेवरा क्षेत्र के ज़रिए द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) की द्वितीय लहर की रोकथाम एवं ईलाज हेतु 25 लाख रु की वित्तीय सहायता ज़िला कलेक्टर, कोरबा को प्रदान किया गया है । कल दिनांक २७ अप्रैल को गेवरा क्षेत्र के नोडल ऑफिसर (सीएसआर) डॉ. सुरेश चौधरी ने कार्यालय ज़िला कलेक्टर, कोरबा में उक्त राशि का चेक जमा कराया । गेवरा क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री एस. के. मोहंती ने अवगत कराया की गेवरा क्षेत्र कोरोना वाइरस की रोकथाम एवं ईलाज हेतु प्रतिबद्ध हैं, तथा यथा संभव ज़िला प्रशासन, कोरबा के साथ समन्वय एवं सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं । ज़िला प्रशासन, कोरबा के दिशा-निर्देशानुसार गेवरा क्षेत्र द्वारा उक्त सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त आस पास के 10 गाँवों में लगातार सेनेटाईजेशन एवं फोगिंग कार्य किया जा रहा हैं तथा साथ ही कोरबा जिले की कटघोरा तहसील हेतु ज़िला प्रशासन को एक एम्बुलेंस प्रदान की गयी है ।

एसईसीएल द्वारा प्रदत्त उक्त सहायता राशि से ज़िले के विभिन्न चिकित्सालयों में कोरोना संक्रमित मरीज़ों के इलाज के लिए मेडिकल इक्वूपमेंट उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।

**जनसम्पर्क अधिकारी
एसईसीएल बिलासपुर**